

Pledge in favour of E.E R.W.D works Div.



Released for minor
Executive Engineer



B.W.D. (W) Div. Kishanganj / Deposit Confirmation

DEVTA PROJECT BUILDERS GOLA GHAT BUXAR 802101 INDIA		सावधि खाता नं./ FD A/c No	31200300021879
		सावधि सूचना नं./ FD Advice No	FDR2308234502
		कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No	EPZ002729
		लपेटा खाता / Linked Operative a/c	31200200007224
		शाखा का नाम/ Branch Name	BUXAR BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD8832N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अल्पवयस्क है) / Guardian Name (if a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	स्वावृद्ध / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1120000	23-08-2023	6.75	12 Months 0 Days	23-08-2024	1197535

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

निचम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में परिवर्तित है।
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज:
3. यदि अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो, अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार। यदि के लिए किया जाएगा।
4. अवधि निर्दिष्ट न हो तो, अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। यदि के लिए किया जाएगा।
5. अवधि 15 की और 15 वर्ष के बीच की अवधि के लिए है।
6. निचम व शर्तें/टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
7. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
8. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
9. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
10. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
11. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
12. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
13. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
14. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
15. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
16. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
17. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
18. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
19. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।
20. अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होगा। अवधि के समाप्ति के दिनांक पर अवधि के लिए किया जाएगा।

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of E.E R.W.D works Div. Buxar



Pledge in favour of E.E R.W.D Works Div. Buxar



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

for *[Signature]*
Executive Engineer
R.W.D./WJ Div. Buxar

जमा पुष्टि कृपया / Deposited Confirmation



DEVTA PROJECT BUILDERS

GOLA GHAT
BUXAR
802101
INDIA

सावधि खाता नं./ FD A/c No

31200300021983

सावधि सूचना नं./ FD Advice No

FDR1507230921

कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No

EPZ002729

संबंधित खाता / Linked Operative a/c

31200200007224

शाखा का नाम/Branch Name

BUXAR BIHAR

योजना / Scheme

FIXED DEPOSIT - RRD(RES)

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

नामनिर्देशन / Nomination

N

नामिली पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No.

AAFFD6832N

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है)
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

SELF

निधन चिह्नित / Lien Marked

Y

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	दर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
912000	15-07-2023	6.75	12 Months 0 Days	15-07-2024	975136

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. स्वयं दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है.

1. Rate of Interest is in percentage per annum

2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :

2. Automatic Renewal Clause

(i) यदि अवधि अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 1 वर्ष के अवधि अवधि के लिए की गई अवधि का अवधि दर लागू पर प्रभावी अवधि दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.

(i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise

(ii) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष के अवधि अवधि के लिए की गई अवधि का अवधि दर लागू पर प्रभावी अवधि दर के अनुसार अवधि है अवधि के लिए किया जाएगा.

(ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise

3. फॉर्म 15 जी और 15 एच निम्नलिखित शर्तों के लिए है.

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only

4. निम्नलिखित दस्तावेज प्रत्येक वर्ष में इसकी घोषणा करना पड़ेगा और इसे एक बार 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सीत पर काटती की जाएगी.

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा.

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)

6. परिपक्वता अवधि क्लॉज :

6. Premature Withdrawal Clause :

(i) 1 करोड़ तक की अवधि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके अवधि (निम्नलिखित) पर 1% पेनल्टी लागू अवधि अवधि के लिए जाने की अवधि से अवधि अवधि तक बैंक में रखा रही उसके बाद 1% कम

(i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.

(ii) 1 करोड़ से अधिक की अवधि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके अवधि (निम्नलिखित) पर 1.5% पेनल्टी लागू अवधि अवधि के लिए जाने की अवधि से अवधि अवधि तक बैंक में रखा रही उसके बाद 1% से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की अवधि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके अवधि के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.

(ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation

DEVTA PROJECT BUILDERS		संविदा संख्या क्र./ FD A/c No	31200300021682
GOLA GHAT BUXAR 802101 INDIA		संविदा सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1705235352
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	EP2002729
		जुड़ाव संख्या / Linked Operative a/c	31200200007224
		शाखा का नाम/Branch Name	BUXAR BIHAR

योजना / Schema	FIXED DEPOSIT - RRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामित पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD6832N	अभिभावक का नाम (यदि धारक अल्पवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
नियत विहित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	स्वाचक्षर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
500000	17-05-2023	6.75	12 Months 0 Days	17-05-2024	534614

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर वसुली में परिवर्धन है।
 2. ब्याज गणनीकरण काटौट।
 3. यदि 1500/- अथवा उससे कम हो तो 1 वर्ष से इससे अधिक अवधि के लिए की गई अवधिगत का गणनीकरण पर गणनीय पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
 4. कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई अवधिगत का गणनीकरण वेम गणनीय पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार इसकी ही अवधि के लिए किया जाएगा।
 5. फॉर्म 15 और 15B सिर्फ निवासी कार्यों के लिए है।
 6. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निश्चित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 और 15B एक 15 पर (जो लागू हो) प्रस्तुत किया जाय, अपरिमित पर का कटौती की जाएगी।
 7. फॉर्म 15B केवल वित्तीय गणनीयों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।
 8. प्रीमैचर अवकाश काटौट।
 9. रु. 1 करोड़ से कम की अवधिगतियों को समझौता बंध करते पर 1% बंध का प्रवधान है अर्थात ऐसे अवधिगत के जारी होने की तिथि का समूह कार्य दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
 10. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की अवधिगतियों को समझौता बंध करने पर 1.5% बंध का प्रवधान है अर्थात ऐसे अवधिगत का बंध में छोड़ जाने वाले अवधि के लिए समूह कार्य दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की अवधिगत के समूह पूर्ण अवकाश के लिए अवधिगत के अंतर्गत से कम से कम 31 दिनों पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।
 11. नि. प्रतियोगिता उम्र के अंतर्गत - प्रीमैचर पूर्ण अवकाश की अनुमति नहीं है।
 12. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
 13. For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
 14. For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
 15. Form 15D and 15H is applicable to Resident accounts only.
 16. A fresh 15D/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
 17. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
 18. Premature Withdrawal Clause.
 19. Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
 20. Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
 21. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of E.E.R.W.D works
Div. BUXAR



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

DEVTA PROJECT BUILDERS GOLA GHAT BUXAR 802101 INDIA		सावधि खाता नं./ FD A/c No	31200300021667
		सावधि सूचना नं./ FD Advice No	FDR1706230332
		कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No	EP2002729
		संबंधित खाता / Linked Operative a/c	31200200007224
		शाखा का नाम/branch Name	BUXAR BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RECURRING	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिनी पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD6832N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अव्यस्क है) / Guardian Name (if a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लिखन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	स्वाजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	पारिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
500000	17-05-2023	6.75	12 Months 0 Days	17-05-2024	534814

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. बकाया पर प्रतिवर्ष 6% दर पर चार्ज होगा। 2. स्वतः नवीकरण करीव। 3. यदि अवधि अवधि न मिले हो तो 1 वर्ष तक इससे अधिक अवधि के लिए भी यह अवधि का बकाया पर लागू होकर चार्ज कर दिया जाएगा। 4. कोई भी व्यक्ति जो इस अवधि के लिए कोई भी अवधि का बकाया पर चार्ज कर दिया जाए तो वह अवधि के लिए चार्ज कर दिया जाएगा। 5. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 6. निम्नलिखित में से कोई भी अवधि के लिए चार्ज कर दिया जाएगा। 7. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 8. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 9. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 10. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 11. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 12. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 13. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 14. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 15. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 16. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 17. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 18. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 19. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 20. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 21. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 22. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 23. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 24. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 25. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 26. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 27. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 28. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 29. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 30. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 31. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 32. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 33. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 34. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 35. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 36. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 37. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 38. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 39. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 40. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 41. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 42. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 43. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 44. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 45. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 46. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 47. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 48. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 49. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 50. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 51. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 52. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 53. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 54. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 55. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 56. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 57. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 58. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 59. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 60. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 61. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 62. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 63. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 64. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 65. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 66. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 67. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 68. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 69. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 70. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 71. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 72. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 73. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 74. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 75. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 76. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 77. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 78. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 79. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 80. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 81. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 82. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 83. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 84. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 85. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 86. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 87. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 88. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 89. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 90. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 91. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 92. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 93. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 94. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 95. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 96. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 97. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 98. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 99. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 100. चार्ज 15 की ओर 15% तक बढ़ाया जा सकता है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause: 1) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 2) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause: 1) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. 2) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 3. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of E.E RWD works Div.

BUXAR



बैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice



DEVTA PROJECT BUILDERS GOLA GHAT BUXAR 802101 INDIA		समिति खाता नं./ FD A/c No	31200300021641
		समिति सूचना नं./ FD Advice No	FDR16052322747
		कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No	EP2002729
		ल्यंक्ड ऑपरेटिव खाता / Linked Operative a/c	31200200007224
		शाखा का नाम/Branch Name	BUXAR BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD6832N	अभिभावक का नाम (यदि कालाधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lion Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	आवृत्ति करने की तिथि / Date of Issue	स्वास्थ्य दर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1205000	16-05-2023	8.75	12 Months 0 Days	16-05-2024	1286337

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. अक्षर दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है
2. स्वतः नवीकरण शर्तें
3. यदि अवधि अवधि में दिवस होंगे 1 वर्ष से कम के अवधि के लिए की गई अवधि का नवीकरण देव खाते पर प्रतिक्रिया करने वाले के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा
4. कोई निधि न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई अवधि का नवीकरण देव खाते पर प्रतिक्रिया करने वाले के अनुसार इसकी ही अवधि के लिए किया जाएगा
5. धर्म 15 की ओर 15वें दिवस पिछली कारों के लिए है
6. निदेशी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नव 15 की 15 दश 15 दश (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा बैंक पर कार्रवाई की जाएगी
7. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
8. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
9. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
10. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
11. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
12. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
13. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
14. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
15. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
16. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
17. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
18. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
19. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
20. धर्म 15 के तहत वित्त खातों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा

1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. Automatic Renewal Clause:
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not extracted otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not extracted otherwise.
3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. Premature Withdrawal Clause:
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
7. In case of 'NON-CALLABLE DEPOSIT' - Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

DEVTA PROJECT BUILDERS GOLA GHAT BUXAR 802101 INDIA	सावधि खाता क्र./ FD A/c No		31200300021969
	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No		FDR1207230159
	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No		EP2002729
	स्वचालू खाता / Linked Operative a/c		31200200007224
	शाखा का नाम/Branch Name		BUXAR BIHAR
	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)		
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RRD(RES)		
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD6832N		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
अग्रिमधारक का नाम (यदि खाताधारक अल्पवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)			
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	नोट कराने की तिथि / Date of Issue	स्वचालू दर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
200000	12-07-2023	8.75	12 Months 0 Days	12-07-2024	213846

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. स्थावर दर परिवर्तन में संबंधित है
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज
3. यदि अवधि अवधि में निधि हो तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दर लागू होगा। अन्यथा अवधि की अवधि में 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
4. कोई निधि न हो तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दर लागू होगा। अन्यथा अवधि की अवधि में 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
5. कोई 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
6. निधि की अवधि में 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
7. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
8. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
9. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
10. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
11. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
12. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
13. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
14. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
15. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
16. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
17. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
18. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
19. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
20. यदि 15 से अधिक 15000 तक निधि नहीं हो तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of E.E R.W.D works Div, Buxar





DEVTA PROJECT BUILDERS

GOLA GHAT
BUXAR
802101
INDIA

सावधि खाता नं./ FD A/c No	31200300021972
---------------------------	----------------

मावपि सधना क्र./ FD Advice No	FDR1207230354
-------------------------------	---------------

कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No	EPZ002729
---------------------------------	-----------

स्वयंसेवा खाता / Linked Operative a/c 31200200007224

भाखा का नाम/ Branch Name	BUXAR BIHAR
--------------------------	-------------

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RRDIRECT
----------------	--------------------------

नामांकन / Nomination	N
----------------------	---

नामिली पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No. AAFFD8532N

परिचालन पद्धति : Mode of Operation	SELF
------------------------------------	------

संयुक्त धारक / Joint Holder (३)

अभिभावक का नाम
(यदि छाताधारक अल्पवयस्क है)
Guardian Name
(If card holder is minor)

सिग्ना धिहिनल / Lion Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	म्हानदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
400000	12-07-2023	6.75	12 Months 0 Days	12-07-2024	427691

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current income Tax rules)

नियम व शर्तें Terms & Conditions:

1. **बिना किसी प्रतीति के खाने से**

2. कृषि नवीकरण परियोजना

1. यदि α तथा β अदिश हैं तो $\alpha\beta$ का मान $\alpha\beta$ के लिए ही है। यदि α तथा β वेक्टर हैं तो $\alpha\beta$ का मान $\alpha\beta$ के लिए ही है। यदि α तथा β वेक्टर हैं तो $\alpha\beta$ का मान $\alpha\beta$ के लिए ही है।

- ii. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष में कम अंकों के लिए उसे ग्राह्य उपायों के परीक्षण के माध्यम से अग्रणी कार्य करने के अलावा इसकी ही अतिरिक्त किंचित किया जाएगा।

3. एप्रील 15 को और 15 एप्रैल सिटी गिडानो कालों के लिए है

4. निम्नलिखित कथनों द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये इसका निश्चित स्रोत पता होने से पूर्व एक तथा 15 से अधिक 15 का एक सही तथा दो प्रत्यक्ष त्रुटि जा, अपना सही पद भर कर दोष की जाहरी

- सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों (50) एवं के अधिक (25) ने ही गरीबों के लिए जजरी

- संलग्नक ४ (अनुसूची १)

- उ. 1. कालेज से कम की आयकरियों को समझाई हो जाने पर 1% रेट का उपभोग है अर्थात्

- [illegible]

7. वेद प्रतिपाद काम के अंतर्गत - वीरवक्त्रा दूर्ध अक्षरा की अनुमति नहीं है

1. Rate of interest is in percentage per annum.

- ### 3. Automatic Backup Clause

- ii) For Deposits issued for a period of 1 year and above: Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

- i) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

3. Form 150 and 15-1's applicable to Resident accounts only

4. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident Individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).

- ### 5. Prognostic Nutritional Index

6. Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.

- 3) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty (i.e. 1.5% less than card rate) as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

7. In case of 'NON-CALLABLE DEPOSIT' - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of E.E R.W.D works Div.



Amount credit to A/c - 312002



Pledge in favour of E.E.R.W.D works Div. Dumraon



पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

DEVTA PROJECT BUILDERS GOLA GHAT BUXAR 802101 INDIA		खाता क्र./ FD A/c No 31200300021665
		पुष्टि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1705230135
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No EPZ002729
		संबंधित खाता / Linked Operative a/c 31200200007224
		शाखा का नाम/Branch Name BUXAR BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
नामांकन / Nomination	N	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.		
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD6832N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अल्पवय है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF	
लियन चिह्नित / Lien Marked	N	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	स्वाजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
400000	17-05-2023	6.75	12 Months 0 Days	17-05-2024	427691

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है
- स्वतः नवीकरण नहीं है
- यदि अपरिमित अवधि का है तो 1 वर्ष से इससे अधिक अवधि के लिए की गई अवधि का नवीकरण देव ब्याज पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा
- सर्वो निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई अवधि का नवीकरण देव ब्याज पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार इसी ही अवधि के लिए किया जाएगा
- सर्वो 15 जी और 15एच निदेशों के तहत है
- निदेशों के अधीन ब्याज दरें वित्त वर्ष के शुरू होने के तहत वित्त वर्ष के शुरू होने से पूर्व एक वर्ष 15 जी एच 15 एच (यदि लागू हो) प्रयुक्त किया जाए, अपरिमित पर कर कटौती की जाएगी
- सर्वो 15 जी और 15एच निदेशों (60 वर्ष से अधिक उम्र) के ही स्वीकार किए जाएंगे
- परिमित अवधि नहीं है

- Rate of Interest is in percentage per annum
- Automatic Renewal Clause
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
- In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of E.E.R.W.D works Div. Dumraon





Spontaneous Creach!

~~Amount credited~~
Pledge in favour of E.F.R. works Div. Buxar



જમા પુષ્ટિ સૂચના / Deposit

DEVTA PROJECT BUILDERS		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	31200300021658
GOLA GHAT BUXAR 802101 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1705230444
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	EP2002729
		ल्यक्चर खाता / Linked Operative a/c	31200200007224
		शाखा का नाम/Branch Name	BUXAR BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - AIRCARES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (\$)	
नामांकन / Nomination	N		
शमिली पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD8832N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	स्वातन्त्र / Rate of Interest	अमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
50000	17-05-2023	6.75	12 Months 0 Days	17-05-2024	53461

*परिपक्वता मूल्य / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

Deposit Amount	17-05-2023	6.75	12 Months 0 Days	17-05-2024
50000				

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. कार्य का प्रतिफल में शामिल है
2. कार्य-प्रदर्शन का प्रतिफल
3. यदि अथवा अनुपस्थिति में हो तो 1 वर्ष में इससे अधिक अवधि के लिए की गई अवकाशिता का प्रतिफल देना संभव नहीं प्रमाणित करने के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाता
4. कार्य प्रतिफल में दिए जाने पर 1 वर्ष में समय अवधि के लिए की गई अवकाशिता का प्रतिफल देना संभव नहीं प्रमाणित करने के अनुसार इसकी की अवधि के लिए किया जाता
5. कार्य 15 वर्ष और अधिक प्रति निदेशित कार्य के लिए है
6. निदेशित कार्य में अनुपस्थिति प्रतिफल 1 वर्ष में इसकी प्रतिफल 15 वर्ष में 15 वर्ष तक (15 वर्ष) के लिए किया जाता, अथवा 15 वर्ष तक कार्य की अवधि
7. कार्य 15 वर्ष के लिए प्रतिफल 15 वर्ष में 15 वर्ष के लिए किया जाता

1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. Automatic Renewal Clause:
 - i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
 - ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA, (if applicable) has to be submitted by Resident Individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. Form 15H can be accepted only from senior Citizens (age of 60 years or more).
6. Premature Withdrawal Clause:
 - i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
 - ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" – Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

pledge in favour of E.E R.W. Parks Div. Dumraon





बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

DEVTA PROJECT BUILDERS

GOLA GHAT
BUXAR
802101
INDIA

सावधि खाता नं./ FD A/c No 31200300021970
सावधि रूपाना नं./ FD Advice No FDR1207230039
कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No EPZ002729
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 31200200007224
शाखा का नाम/Branch Name BUXAR BHAR

योजन / Scheme FIXED DEPOSIT - RIPORES)
नियुक्ति / Nomination N
नामिती पंजीकरण नं. / Nominee Registration No.
पैन नंबर / PAN No. AAFFD5832N
परिचालन पद्धति / Mode of Operation SELF
लियन चिह्नित / Lien Marked N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अल्पवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	स्वाजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
200000	12-07-2023	8.75	12 Months 0 Days	12-07-2024	213846

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15G और 15H (यदि लागू) के बिना जारी किया जाएगा
4. A fresh 15G/ 15H (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. Premature Withdrawal Clause:
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of E.E R.W.D works Div.



Pledged in favour of E.E R.W.D Works Division



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Released
26/08/2023
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

DEVTA PROJECT BUILDERS GOLA GHAT BUXAR 802101 INDIA		सावधि खाता नं./ FD Ac No	31200300013968
		सावधि सूचना नं./ FD Advice No	FDR2303234728
		कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No	EP2002729
		लपेटाईर खाता / Linked Operative a/c	31200200007224
		शाखा का नाम/Branch Name	BUXAR BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - R/RD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD8832N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (if a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
निबन्ध चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	स्वादेशदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिमत्तता तिथि / Maturity Date	परिमत्तता मूल्य / Maturity Value*
261304	24-12-2022	6.10	12 Months 0 Days	24-12-2023	277612

*परिमत्तता मूल्य टीडीएस को अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. खाता हर वक़्त में सक्रिय रहे।	1. Rate of interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण शर्तें।	2. Automatic Renewal Clause:
3. यदि जमाकर्ता अवधि में दिखे हुए ले 1 वर्ष से इसकी अवधि के लिए की गई अवधि का नवीकरण देव लगीत पर परमिता प्राप्त हो के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	3. For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
4. यदि अवधि में दिखे जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई अवधि का नवीकरण देव लगीत पर परमिता प्राप्त हो के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	4. For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
5. धर्म 15 और 15 एच फॉर्म निम्नलिखित शर्तों के लिए है।	5. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
6. निम्नलिखित दस्तावेज प्रत्येक वक़्त में इसकी प्रतिलिपि सौंपा जाए और इसे 15 एच और 15 एच फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा खाते पर ब्याज कटौती की जाएगी।	6. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
7. धर्म एच फॉर्म केवल वयस्क नागरिकों (90 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।	7. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
8. परिमत्तता अवधि शर्तें।	8. Premature Withdrawal Clause:
9. यदि एक वर्ष की अवधि की परिमत्तता अवधि के पूरे इसके अंश (निम्नलिखित) पर 1% पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि अवधि के अवधि से निम्नलिखित अवधि तक बैंक में रहने पर इसे बर्त में दे दे।	9. Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than call rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
10. यदि एक वर्ष की अवधि की परिमत्तता अवधि के पूरे इसके अंश (निम्नलिखित) पर 1% पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि अवधि के अवधि से निम्नलिखित अवधि तक बैंक में रहने पर इसे बर्त में दे दे।	10. Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than call rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Pledged in fav. of E.E R.W.D Works Division Buxar



Released
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div., Buxar

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर

पत्रांक- 492 बक्सर/दिनांक- 16/03/24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
बैंक ऑफ बड़ौदा
बक्सर।

विषय :- F.D.R. का सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के संवेदक द्वारा आपके बैंक से निम्न F.D.R. जमानत की राशि के रूप में निर्गत किया गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	संवेदक का नाम	F.D. की संख्या	F.D. की राशि	निर्गत करने की तिथि
1	M/s Devta Project Builders	31200300021879	11,20,000.00	23.06.2023
2	M/s Devta Project Builders	31200300021983	9,12,000.00	15.07.2023
3	M/s Devta Project Builders	31200300021662	5,00,000.00	17.05.2023
4	M/s Devta Project Builders	31200300021667	5,00,000.00	17.05.2023
5	M/s Devta Project Builders	31200300021641	12,05,000.00	16.05.2023
6	M/s Devta Project Builders	31200300021969	2,00,000.00	12.07.2023
7	M/s Devta Project Builders	31200300021972	4,00,000.00	12.07.2023
8	M/s Devta Project Builders	31200300021665	4,00,000.00	17.05.2023
9	M/s Devta Project Builders	31200300021668	50,000.00	17.05.2023
10	M/s Devta Project Builders	31200300021970	2,00,000.00	12.07.2023
11	M/s Devta Project Builders	31200300013966	2,61,304.00	24.12.2022
		Total-	57,48,304.00	

इसकी पुष्टि की जाय कि संवेदक के इस F.D. को जख्त करने की स्थिति में क्या इसके निमित्त राशि को कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बक्सर आपसे सीधे चेक या डी०डी० प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं ?
अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

16.03.24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर